

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक - १२ -०६ - २०२१

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे।

क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार

क्रिया विशेषण अव्यय चार प्रकार के होते हैं।

1. काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय
2. स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय
3. रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय
4. परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अव्यय

1. काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय

वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय की विशेषता बतलाता है। उन्हें काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं।

जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, सायं, अभी, परसों, सुबह, शाम, कभी-कभी, तुरन्त, अब, तब, दिन-रात, पहले, बाद में इत्यादि।

उदाहरण

- मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ।
- रचना अभी आई थी।
- सुचिता परसों जयपुर जाएगी।
- वह तुरन्त चला गया
- नितेश परसों मेरे घर आया था।

- कल बरसात होगी।
- मैंने शाम को खाना खाया था।
- मैं दोपहर में विद्यालय से लौटता हूँ।

नोट यदि क्रिया के साथ 'कब' शब्द रखकर करें और उत्तर मिले तो वहां काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है।

2. स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय

वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बतलाते हैं। उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं।

जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर-उधर, आगे, पीछे, दाये, बाये, आमने-सामने, यहां वहां, यहीं, वहीं बाहर भीतर, इत्यादि।

उदाहरण

- निशा वहां चल रही है।
- मैं अन्दर पढ़ा रहा था।
- तुम वहां क्या कर रहे